



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 2, 2009/माघ 13, 1930

No. 14]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 2, 2009/MAGHA 13, 1930

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2009

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (कार्य संचालन) संशोधन विनियम, 2009

सं. भारतराष्ट्र/बीएम-11041/98/2008-प्रशासन.—

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 7 के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (कार्य संचालन) विनियमावली, 1997 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) ये विनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (कार्य संचालन), संशोधन विनियम, 2009 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (कार्य संचालन) विनियम, 1997 के विनियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“4. कोरम :

(1) प्राधिकरण की कोई बैठक तब तक वैध और मान्य नहीं होगी जब तक—

(i) दो तिहाई पूर्णकालिक सदस्य बैठक में भाग न लें, बशर्ते, यदि पूर्णकालिक सदस्यों की दो अथवा अधिक, परन्तु चार से कम रिक्तियाँ हैं, तब कम से कम

शेष दो पूर्णकालिक सदस्य बैठक में भाग लेंगे और यदि पूर्णकालिक सदस्यों की चार अथवा अधिक रिक्तियाँ हैं, तब सभी शेष पूर्णकालिक सदस्य बैठक में भाग लेंगे; और

(ii) तीन चौथाई अंशकालिक सदस्य बैठक में भाग न लें, बशर्ते, यदि अंशकालिक सदस्य की एक रिक्ति है, तब शेष तीन अंशकालिक सदस्यों में से कम से कम दो सदस्य बैठक में भाग लेंगे और यदि दो रिक्तियाँ हैं, तब शेष दो अंशकालिक सदस्यों में से, कम से कम एक सदस्य बैठक में भाग लेगा।

(2) कार्यसूची की मर्दे, जिन पर निर्णय लिया जाना अपेक्षित है, प्राधिकरण की बैठक आयोजित होने से कम से कम सात दिन पहले परिचालित कर दी गई हों।”

के. एस. मणि, सदस्य (प्रशासन)

[विज्ञापन III/4/122/2008/असा.]

पाद टिप्पणी :—मूल विनियमावली, अधिसूचना संख्या एनएचएआर-12011/2/95-प्रशा., तारीख 11 मार्च, 1997 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, तारीख 11 मार्च, 1997 में प्रकाशित की गई थी और गत संशोधन अधिसूचना संख्या 11041/26/2000-प्रशासन, तारीख 2 फरवरी, 2001 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, तारीख 2 फरवरी, 2001 में किया गया।

**THE NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF
INDIA**

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2009

**The National Highways Authority of India (Transaction
of Business) Amendment Regulations, 2009**

No. NHAI/BM-11041/98/2008-Admn.—In exercise of the powers conferred by Section 35, read with Section 7, of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the National Highways Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the National Highways Authority of India (Transaction of Business) Regulations, 1997, namely :—

1. (1) These regulations may be called the National Highways Authority of India (Transaction of Business) Amendment Regulations, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For regulation 4 of the National Highways Authority of India (Transaction of Business), Regulations, 1997, the following regulation shall be substituted, namely :—

“4. Quorum :

(1) No meeting of the Authority is to be considered legal and valid unless—

(i) attended by two-third of the full-time members, subject to the condition that if there are two or more but less than four vacancies of the full-time members, then at least two remaining full-time members shall attend the meeting and if there are four or more vacancies of full-time members, all the remaining full-time members shall attend the meeting; and

(ii) attended by three-fourth of the part-time members, subject to the condition that if there is one vacancy in the part-time members, then at least two of the remaining three part-time members shall attend the meeting and if there are two vacancies, then at least one of the remaining two part-time members shall attend the meeting.

(2) The agenda papers for decision required should have been circulated at least seven days before the scheduled meeting of the Authority.”

K. S. MONEY, Member (Administration)

[ADVT III/4/122/2008/Ext.]

Foot note.—The principal regulations were published *vide* Notification No. NHAR-12011/2/95-Admn., dated the 11th March, 1997, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 11th March, 1997 and last amended *vide* Notification No. 11041/26/2000-Admn., dated the 2nd February, 2001, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 2nd February, 2001.